

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2015 (फाल्गुन 23, 1936)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2015 (PHALGUNA 23, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2015

सं. डीपीपर्स-I/2015/60/3/1/85—श्री महेन्द्र कुमार, अपर विधि सलाहकार, के.अ. ब्यूरो, आई.पी.सी.सी., नई दिल्ली ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 31.01.2015 के अपराह्न से अपर विधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 26 फरवरी 2015

सं. डीपीपर्स-I/2015/699/3/94/90—श्री बी. एल. मीना, उपविधि सलाहकार, के.अ. ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा नई दिल्ली ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर दिनांक 17.02.2015 के पूर्वाह्न से उपविधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 फरवरी 2015

सं. ओ.दो-3683/2015-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री सदानंद वसंत दाते, भा.पु.से. (एम.एच. : 90) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 37,400—67,000/- के वेतन बैंड (पी.बी.-4) तथा ग्रेड वेतन रु. 10,000/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल. का कार्यभार दिनांक 25.02.2015 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
मुंबई-85, दिनांक 24 फरवरी 2015

सं. पीडी/4(4)/2014-भर्ती-III/2015/2098—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री गोपीराम आर., निजी सचिव (गैर-सचिवलयीन) को दिनांक 13.02.2015 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
मुंबई-400001, दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. एईसी-1(1)/15/1940—राष्ट्रपति, व परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का गठन वर्ष 2015 हेतु अधिसूचित करने के संबंध में जारी इस विभाग की दिनांक 22 जनवरी 2015 की अधिसूचना सं. एईसी-1(1)/15/919 में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. एस. जयशंकर, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 9 फरवरी 2015 से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग के नये सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

अतः वर्ष 2015 की शेष अवधि हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का गठन निम्नानुसार होगा :

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. डॉ. रतन कुमार सिन्हा
सचिव, भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग | — | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. श्री नृपेन्द्र मिश्रा
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | — | सदस्य |
| 3. श्री अजित कुमार डोवाल
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | — | सदस्य |
| 4. श्री अजित कुमार सेठ
मंत्रिमंडल सचिव | — | सदस्य |
| 5. डॉ. एस. जयशंकर
विदेश सचिव | — | सदस्य |
| 6. श्री रतन पी. वाटल
सचिव, व्यय विभाग | — | सदस्य |
| 7. श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन
सचिव, भारत सरकार | — | सदस्य (वित्त) |
| 8. डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन
पूर्व अध्यक्ष, एईसी | — | सदस्य |
| 9. प्रो. पी. रामा राव
पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | — | सदस्य |
| 10. डॉ. अनिल काकोडकर
पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं
परुवि होमी भाभा चेयर प्रोफेसर | — | सदस्य |

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 11. | डॉ. आर. बी. ग़ोवर
कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय अनुसंधान तथा
पऊवि होमी भाभा चेयर प्रोफेसर | — | सदस्य |
| 12. | श्री शेखर बसु
निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र | — | सदस्य |
| 13. | डॉ. के. कस्तुरीरंगन
पूर्व अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग एवं पूर्व सदस्य,
योजना आयोग | — | सदस्य |

अरुण श्रीवास्तव
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-म/2015/787—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री पी. के. सामिकन्नन, सहायक (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), सामान्य सेवाएं संगठन, कल्पक्कम को दिनांक 16.09.2013 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

कम्पनी कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कानपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

No. TC/MCA/37(1)/7750—एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 (1) के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि आज से 30 दिनों की समाप्ति तक निम्नलिखित एलएलपी का नाम, यदि प्रतिकूल कारण नहीं बताया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा एलएलपी विघटित कर दी जायेगी।

Sl.No.	Name of the Company	CIN NO.	SRN No.
1	माइल्स बीपीओ साल्यूशन्स एलएलपी	AAB-0013	L00791491
2	माधव एसोशिएट्स एलएलपी	AAA-2501	L00819938
3	आरएजीएस एकास्टिक साल्यूशन्स एलएलपी	AAA-8174	L01121185
4	सक्षम एसोशिएट्स एलएलपी	AAA-7489	L01234491
5	एजुकेयर हब एलएलपी	AAA-2907	L01597814
6	इनटालहुकोट साल्यूशन्स एलएलपी	AAA-1727	L01681865
7	एविसनोवो इन्फो साल्यूशन्स एलएलपी	AAB-4991	L02238228
8	वूफ इन्फोटेक एलएलपी	AAB-8631	L02255172
9	पर्पल स्क्वैरल कन्सल्टिंग एलएलपी	AAA-9334	L02338861

एस. पी. कुमार
कम्पनी.रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक फरवरी 2015

संख्या : 560(5)/उ.ख.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	डी0 के0 बी0 पॉवर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U40300UR2012PTC000328	C32529216
2	वे0 एल0 एनवॉयरमेन्टल कन्जरवेटिव एनर्जी जनेरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U31900UR2007PTC032496	C32795676
3	एडवयता आनन्दा योगा एजुकेशन फाउन्डेशन	U74120UR2012NPL000305	C33834862
4	टाइगर टाइगर होम प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2008PTC032729	C35085877
5	अंजनेय इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UR2010PTC033223	C38574851
6	शिवनमन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101UR2007PTC032512	C38525994
7	इको सिक्वूएस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2009PTC032754	C37320694
8	भगवान इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UR2012PTC000304	C38062147
9	इनफोटेक इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U72210UR1990PTC011831	C29040680
10	स्टारकिंग मैनेजमेन्ट एंड जॉब ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120UR2009PTC033000	C33977919
11	मनडोर स्टोर्स क्रशर्स प्राइवेट लिमिटेड	U14200UR2009PTC032838	C33698614
12	जवलपा इस्टेट्स डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UR2006PTC031855	C36987741

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं
शासकीय समापक
उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956, तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में
कोलकाता, दिनांक 25 फरवरी 2015

संख्या: क.र./प.0ब(1)/एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 99 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र.सं	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U65991WB1993PLC060833	त्रिवेणी फ़्लू मैनेजमेंट लिमिटेड
2	U74900WB2013PTC194688	गिफ्ट सर्कल ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3	U27109WB1993PLC060654	निओ नाइसटोको फोर्ग लिमिटेड
4	U34300WB2001PTC093744	राहुल ँ ईटी सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
5	U60200WB2008PTC126765	हेलिकोन लोजीसटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	U40103WB2010PTC143182	मेकनील इजीन्यर प्राइवेट लिमिटेड
7	U35111WB1999PTC089713	स्वाहोम शिपिण्डा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
8	U67110WB2009PTC136915	श्याम सुमन कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
9	U52390WB2009PTC139006	स्नो व्हाइट डेल्टेड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200WB2009PTC139004	स्नो व्हाइट सॉफ्टवेयर सर्विसेस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
11	U70109WB2011PTC163884	पी भी इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
12	U70109WB2012PLC172839	चाहिदा प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
13	U74220WB1963PTC025892	इम्पेक्शन एंड टेस्टिंग कम्पनी लिमिटेड प्राइवेट (इंडिया)
14	U51909WB2008PTC124041	दयानिधि डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
15	U70109WB2011PTC167227	शाकम्बरी अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
16	U64203WB2011PTC159139	तिरुमाला टेलीकम्यूनिकेश सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
17	U51909WB2012PTC181741	गोलाप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	U65999WB1992PLC055727	गीतायन विनियोग लिमिटेड
19	U25202WB1993PTC060272	रॉकी पैकेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U25206WB1987PTC042250	योडेवा सेनथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U15491WB1999PLC089150	कमेल्लिया फ्रीज ड्राइंग लिमिटेड
22	U85110WB2007PTC115663	हावडा डाइग्नोस्टिक सेंटर एंड पॉलीक्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड
23	U51909WB2003PTC097139	अनुभव डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U51909WB2009PTC137723	डार्किन डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U51909WB2005PTC101400	रिमैक कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
26	U72200WB2000PTC092175	ट्रांसलैंड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
27	U72900WB2005PTC102792	जीडीएसवाईएस टेकनॉ प्राइवेट लिमिटेड
28	U63090WB2011PTC166413	कतरूका रोडलाइफ प्राइवेट लिमिटेड
29	U52190WB2011PTC161230	निर्भय डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U74140WB2011PTC167046	एपेक एड्वाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
31	U70102WB2012PTC187570	अस्टमी इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड
32	U74999WB2011PTC167005	जील्लीओन रीटेल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
33	U51909WB2004PTC099392	ममी फरमा एंड हैल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U67120WB1992PLC055455	पीएसएम इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
35	U74140WB1994PLC066243	केशव बिज़नस लिमिटेड
36	U15490WB2008PTC130912	डीएएन मील्लर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U51909WB2011PTC169211	ओप ईडी ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
38	U74999WB2010PTC152222	नामिष एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U51109WB1997PTC083710	नबरूप सेल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
40	U40106WB2009PTC135881	केलेडोनिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
41	U45209WB2009PTC135887	एनरिच इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U40106WB2009PTC135882	ग्रासीया एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U93090WB2006PTC125621	वालफोर्ड इंडियाइन्फ्रास्ट्रक्चर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
44	U52390WB2010PTC143332	सटिसफेकेशन डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U52390WB2010PTC142391	मारुति विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
46	U52390WB2010PTC142396	मण्णलगौरी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
47	U52390WB2010PTC143370	एक्वाटे डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U51101WB2010PTC142990	क्रेजी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U74900WB2010PTC150529	सम्पूर्ण कोमोसेल प्राइवेट लिमिटेड
50	U80904WB2007PTC116390	ओवर्सीस स्टूडेंट्स एडुनेट प्राइवेट लिमिटेड
51	U18101WB2008PTC124865	श्री श्याम सुन्दर स्टोर प्राइवेट लिमिटेड
52	U15549WB1995PTC074337	तृप्ति स्नैक्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U93000WB2011PTC168958	मिडस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U51109WB1994PTC062342	एक्वीनॉक्स ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
55	U15142WB1981PTC033534	के पी चौधुरी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
56	U52110WB1994PLC062367	कोनार्ड ट्रेक्सिम लिमिटेड
57	U64200WB2010PTC142896	एरो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
58	U51909WB2010PTC148940	गोल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
59	U51909WB2010PTC148938	गियान्त वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
60	U50401WB2009PTC138415	जीलिमिटेड प्राइवेट सेल्स ऑटो भी.
61	U22210WB2011PTC162433	बी बी मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U92100WB2010PTC152672	श्री सिक्सटी डिग्री इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
63	U74900WB2014PTC201687	एसएसकेजी सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
64	U52599WB2003PTC096108	मोनार्क बाजार प्राइवेट लिमिटेड
65	U15412WB2001PTC093552	मोनार्च वर्फेस प्राइवेट लिमिटेड
66	U45400WB2010PTC150201	एसएसबी रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
67	U45400WB2011PLC161793	स्मार्ट हाइराइज लिमिटेड
68	U27109WB2004PTC100450	ए.एस.इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
69	U24220WB2007PTC115350	फ्लामिणो पेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U74999WB2004PTC098601	सानो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U63040WB2000PTC091666	ट्रवेल्लर'स कॉम्पेनिऑन प्राइवेट लिमिटेड
72	U19201WB1993PTC059778	ओवर्सिस लेदर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
73	U85110WB2000PTC092587	बीएनपी लपरोस्कोपिस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
74	U52190WB2012PTC182022	डेस्टिनेड एन वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
75	U20299WB2005PTC105093	पीठमा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
76	U52390WB2010PTC140819	वर्सेटाइल ट्रेडलिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
77	U72300WB2013PTC195335	ड्रॉजिक्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
78	U74999WB2012PTC184159	जीवनज्योती डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U74999WB2012PTC184158	त्रिवोन सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U67120WB2007PLC118899	स्टीवर्ट एंड मैक्करटिक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशनस लिमिटेड
81	U74140WB2007PLC118901	स्टीवर्ट एंड मैक्करटिक एड्वाइजर्स एंड ब्रोकर्स लिमिटेड
82	U74900WB2013PTC189892	साथकरतार कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
83	U74900WB2013PTC189891	क्वालिमोन सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
84	U74900WB2013PTC189625	ऑनस्टाइल सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U74900WB2013PTC189623	एस्ट्रोपावर डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U74900WB2013PTC189893	साईनन्या डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U74900WB2013PTC189890	वालटज डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
88	U74900WB2013PTC189894	टेलीचॉइस डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U74900WB2013PTC189624	डार्कसेल कोमोसेल प्राइवेट लिमिटेड
90	U74210WB1989PTC048039	बोवास जीबीएम इजीन्यरिंग प्राइवेट लिमिटेड
91	U74900WB2013PTC189626	साथकरतार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
92	U52190WB2011PTC159482	गॉडविन वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
93	U52190WB2011PTC159305	सियोना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
94	U52190WB2011PTC159665	विन्सेंट वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
95	U52190WB2011PTC159667	विश्वटन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
96	U72200WB2012PTC185632	टेकिंग इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड
97	U29130WB2009PTC140294	प्रीमियर एयर डक्ट सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
98	U74999WB2012PTC179565	यमवेरी ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
99	U74999WB2012PTC184157	लाइफनू कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बङ्गाल

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 20th February 2015

No. DPPERS.I/2015/60/3/1/85—Shri Mahendra Kumar, Additional Legal Advisor, CBI, IPCC, New Delhi has relinquished the charge of the post of Additional Legal Advisor with effect from the afternoon of 31.01.2015 on attaining the age of superannuation.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers)

The 26th February 2015

No. DPPERS.I/2015/699/3/94/90—Shri B.L. Meena, Deputy Legal Advisor, CBI, ACB, New Delhi has relinquished the charge of the post of Deputy Legal Advisor with effect from the forenoon of 17.02.2015 on voluntary retirement.

D. P. Singh
Admin. Officer (Pers)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-03, the 25th February 2015

No. O.II-3683/2015-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Sadanand Vasant Date, IPS (MH : 90) as Inspector General (IG) in CRPF on deputation basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of 05 years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

02. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the forenoon of 25/02/2015.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai- 85, the 24th February 2015

No. PD/4(4)/2014-R-III/2015/2098—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Gopiram R., Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 13.02.2015 in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4800/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 12th February 2015

No. AEC-1(1)/15/1940—In partial modification to this Department's notification No. AEC-1(1)/15/919 dated January 22, 2015, notifying the constitution of the Atomic Energy Commission (AEC) for the year 2015, the President is pleased to appoint Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi as a new Member of the AEC with effect from February 9, 2015.

The constitution of the AEC for the remaining period of the year 2015 would thus be as follows :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Dr. Ratan Kumar Sinha
Secretary to the Government of India
Department of Atomic Energy | Chairman (ex-officio) |
| 2. | Shri Nripendra Misra
Principal Secretary to the Prime Minister | Member |
| 3. | Shri Ajit Kumar Doval
National Security Advisor | Member |
| 4. | Shri Ajit Kumar Seth
Cabinet Secretary | Member |

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 5. | Dr. S. Jaishankar
Foreign Secretary | Member |
| 6. | Shri Ratan P. Watal
Secretary, Department of Expenditure | Member |
| 7. | Shri Sudarsanam Srinivasan
Secretary to the Government of India | Member for Finance |
| 8. | Dr. M.R. Srinivasan
Former Chairman, AEC | Member |
| 9. | Prof. P. Rama Rao
Former Secretary, Dept. of Science & Technology | Member |
| 10. | Dr. Anil Kakodkar
Former Chairman, AEC &
DAE Homi Bhabha Chair Professor | Member |
| 11. | Dr. R.B. Grover
Vice Chancellor, Homi Bhabha National Institute &
DAE Homi Bhabha Chair Professor | Member |
| 12. | Shri Sekhar Basu
Director, Bhabha Atomic Research Centre | Member |
| 13. | Dr. K. Kasturirangan,
Former Chairman, Space Commission &
Former Member, Planning Commission | Member |

ARUN SRIVASTAVA
Secretary to the Atomic Energy Commission

HEAVY WATER BOARD

Mumbai - 400 094, the 12th February 2015

No. HWB/R/1(8)-M/2015/787—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri P.K. Samikkannan, Assistant (Pay Band-2 Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/-), General Services Organisation, Kalpakkam to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay Rs. 4800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 16th September, 2013 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS O/o. REGISTRAR OF COMPANIES, UP & UTTARAKHAND,

Kanpur-208001, the 25th February 2015

No.TC/MCA/37(1)/7751—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the following LLPs unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said LLP will be dissolved.

Sl.No.	Name of the Company	CIN NO.	SRN No.
1	MILES BPO SOLUTIONS LLP	AAB-0013	L00791491
2	MADHAV ASSOCIATES LLP	AAA-2501	L00819938
3	RAGS ACOUSTIC SOLUTIONS LLP	AAA-8174	L01121185
4	SAKSHAM ASSOCIATES LLP	AAA-7489	L01234491
5	EDUCARRE HUB LLP	AAA-2907	L01597814
6	INTALHUCOT SOLUTIONS LLP	AAA-1727	L01681865
7	AVISNOVO INFOSOLUTION LLP	AAB-4991	L02238228

Sl.No.	Name of the Company	CIN NO.	SRN No.
8	WOOF INFOTECH LLP	AAB-8631	L02255172
9	PURPLE SQUIRREL CONSULTING LLP	AAA-9334	L02338861

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies
The 2015

No. LC/560(5)/UK—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	DKB POWER COMPANY PRIVATE LIMITED	U40300UR2012PTC000328	C32529216
2	K L ENVIRONMENTAL CONSERVATIVE ENERGY GENERATING COMPANY PRIVATE LIMITED	U31900UR2007PTC032496	C32795676
3	ADVAYTA ANANDA YOGA EDUCATION FOUNDATION	U74120UR2012NPL000305	C33834862
4	TIGER TIGER HOME PRIVATE LIMITED	U74900UR2008PTC032729	C35085877
5	ANJNAY INFRATECH PRIVATE LIMITED	U70102UR2010PTC033223	C38574851
6	SHIVNAMAN RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101UR2007PTC032512	C38525994
7	ECO SEQUEST PRIVATE LIMITED	U74900UR2009PTC032754	C37320694
8	BHAGWAN IMPEX PRIVATE LIMITED	U74120UR2012PTC000304	C38062147
9	INFOTECH ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U72210UR1990PTC011831	C29040680
10	STARKING MANAGEMENT AND JOB TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UR2009PTC033000	C33977919
11	NANDAU STONES CRUSHERS PRIVATE LIMITED	U14200UR2009PTC032838	C33698614
12	JWALPA ESTATES DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201UR2006PTC031855	C36987741

S. P. KUMAR
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator,
Attached to High Court, Nainital, Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Kolkata, the 25th February 2015

No. ROC/WB/FTE/560/2014 Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 99 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U65991WB1993PLC060833	TRIVENI FUND MANAGEMENT LTD.
2	U74900WB2013PTC194688	GIFT CIRCLE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U27109WB1993PLC060654	NEO NAISTOCO FORGE LTD.

SL No.	CIN	Name of the Company
4	U34300WB2001PTC093744	RAHUL IT SOLUTIONS PVT LTD
5	U60200WB2008PTC126765	HELICON LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED
6	U40103WB2010PTC143182	MECNEELE ENGINEER PRIVATE LIMITED
7	U35111WB1999PTC089713	SWAHOM SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
8	U67110WB2009PTC136915	SHYAM SUMAN COMMODITIES & DERIVATIVES PRIVATE LIMITED
9	U52390WB2009PTC139006	SNOW WHITE DEALTRADE COMPANY PRIVATE LIMITED
10	U72200WB2009PTC139004	SNOW WHITE SOFTWARE SERVICESCOMPANY PRIVATE LIMITED
11	U70109WB2011PTC163884	PEE VEE INFRABUILD PRIVATE LIMITED
12	U70109WB2012PLC172839	CHAHIDA PROJECTS INDIA LIMITED
13	U74220WB1963PTC025892	INSPECTION & TESTING CO.(INDIA) PVT LTD
14	U51909WB2008PTC124041	DAYANIDHI DEALCOM PRIVATE LIMITED
15	U70109WB2011PTC167227	SHAKAMBARI APARTMENT PRIVATE LIMITED
16	U64203WB2011PTC159139	TIRUMALA TELECOMMUNICATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	U51909WB2012PTC181741	GOLAAP MARKETING PRIVATE LIMITED
18	U65999WB1992PLC055727	GEETTEAN VINIYOG LTD.
19	U25202WB1993PTC060272	ROCKY PACKAGERS PVT LTD
20	U25206WB1987PTC042250	YODEVA SYNTHETICS PVT LTD
21	U15491WB1999PLC089150	CAMELLIA FREEZE DRYING LIMITED
22	U85110WB2007PTC115663	HOWRAH DIAGNOSTIC CENTRE & POLYCLINIC PRIVATE LIMITED
23	U51909WB2003PTC097139	ANUBHAV DEALERS PRIVATE LIMITED
24	U51909WB2009PTC137723	DARKIN DEALERS PRIVATE LIMITED
25	U51909WB2005PTC101400	REMAC COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
26	U72200WB2000PTC092175	TRANSLAND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	U72900WB2005PTC102792	GDSYS TECHNO PRIVATE LIMITED
28	U63090WB2011PTC166413	KATARUKA ROADLINES PRIVATE LIMITED
29	U52190WB2011PTC161230	NIRBHAY DEALERS PRIVATE LIMITED
30	U74140WB2011PTC167046	APACE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
31	U70102WB2012PTC187570	ASTAMI INFRACON PRIVATE LIMITED
32	U74999WB2011PTC167005	ZILLION RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED
33	U51909WB2004PTC099392	MAMI PHARMA & HEALTH CARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
34	U67120WB1992PLC055455	PSM INVESTMENT COMPANY LTD
35	U74140WB1994PLC066243	KESHAV BUSINESS LTD
36	U15490WB2008PTC130912	DAN MILLERS PRIVATE LIMITED
37	U51909WB2011PTC169211	OID TRADECOM PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
38	U74999WB2010PTC152222	NAMISH ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
39	U51109WB1997PTC083710	NABARUP SALES AGENCY PRIVATE LIMITED
40	U40106WB2009PTC135881	CELEDONIA ENERGY PRIVATE LIMITED
41	U45209WB2009PTC135887	ENRICH INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
42	U40106WB2009PTC135882	GRACIA ENERGY PROJECTS PRIVATE LIMITED
43	U93090WB2006PTC125621	WALLFORD INDIAINFRASTRUCTURE REALITY PRIVATE LIMITED
44	U52390WB2010PTC143332	SATISFACTION DEALERS PRIVATE LIMITED
45	U52390WB2010PTC142391	MARUTI VINTRADE PRIVATE LIMITED
46	U52390WB2010PTC142396	MANGALGAURI AGENCY PRIVATE LIMITED
47	U52390WB2010PTC143370	EQUATE DEALERS PRIVATE LIMITED
48	U51101WB2010PTC142990	CRAZY SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
49	U74900WB2010PTC150529	SAMPURN COMMOSALE PRIVATE LIMITED
50	U80904WB2007PTC116390	OVERSEAS STUDENTS EDUNET PRIVATE LIMITED
51	U18101WB2008PTC124865	SHREE SHYAM SUNDER STORE PRIVATE LIMITED
52	U15549WB1995PTC074337	TRIPTI SNACKS & FOODS PVT.LTD.
53	U93000WB2011PTC168958	MIDAS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
54	U51109WB1994PTC062342	EQUINOX TREXIM PVT. LTD.
55	U15142WB1981PTC033534	K P CHOWDHARY AGENCIES PVT LTD
56	U52110WB1994PLC062367	CONARD TREXIM LTD
57	U64200WB2010PTC142896	AAERO INFOCOM PRIVATE LIMITED
58	U51909WB2010PTC148940	GOAL AGENCY PRIVATE LIMITED
59	U51909WB2010PTC148938	GIANT VANIJYA PRIVATE LIMITED
60	U50401WB2009PTC138415	G.V AUTO SALES PRIVATE LIMITED
61	U22210WB2011PTC162433	B B MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED
62	U92100WB2010PTC152672	THREE SIXTY DEGREE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
63	U74900WB2014PTC201687	SSKG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
64	U52599WB2003PTC096108	MONARCH BAZAAR PRIVATE LIMITED
65	U15412WB2001PTC093552	MONARCH WAFERS PRIVATE LIMITED
66	U45400WB2010PTC150201	SSB REALCON PRIVATE LIMITED
67	U45400WB2011PLC161793	SMART HIGHRISE LIMITED
68	U27109WB2004PTC100450	A.S. ISPAT PRIVATE LIMITED
69	U24220WB2007PTC115350	FLAMINGO PAINTS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
70	U74999WB2004PTC098601	SANO HEALTH CARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
71	U63040WB2000PTC091666	TRAVELLER'S COMPANION PRIVATE LIMITED
72	U19201WB1993PTC059778	OVERSEAS LEATHER CRAFT PRIVATE LIMITED.
73	U85110WB2000PTC092587	BNP LAPAROSKOPIC RESEARCH TRAINING CENTRE PVT LTD

SL No.	CIN	Name of the Company
74	U52190WB2012PTC182022	DESTINED N WEALTH DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
75	U20299WB2005PTC105093	PIEUMA VYAPAR PRIVATE LIMITED
76	U52390WB2010PTC140819	VERSATILE TRADELINK PRIVATE LIMITED
77	U72300WB2013PTC195335	TRULOGIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
78	U74999WB2012PTC184159	JIBANJYOTI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
79	U74999WB2012PTC184158	TRIWON SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
80	U67120WB2007PLC118899	STEWART & MACKERTICH FINANCIAL DISTRIBUTIONS LIMITED
81	U74140WB2007PLC118901	STEWART & MACKERTICH ADVISORS AND BROKERS LIMITED
82	U74900WB2013PTC189892	SATHKARTAR COMMOTRADE PRIVATE LIMITED
83	U74900WB2013PTC189891	QUALIMON SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
84	U74900WB2013PTC189625	OWNSTYLE SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
85	U74900WB2013PTC189623	ASTROPOWER DEALERS PRIVATE LIMITED
86	U74900WB2013PTC189893	SIAANANYA DEALERS PRIVATE LIMITED
87	U74900WB2013PTC189890	WALTAZ DEALTRADE PRIVATE LIMITED
88	U74900WB2013PTC189894	TELECHOICE DEALERS PRIVATE LIMITED
89	U74900WB2013PTC189624	DARKCELL COMMOSALE PRIVATE LIMITED
90	U74210WB1989PTC048039	BOWAS GBM ENGINEERING PRIVATE LIMITED
91	U74900WB2013PTC189626	SATHKARTAR MARKETING PRIVATE LIMITED
92	U52190WB2011PTC159482	GODWIN VANIJYA PRIVATE LIMITED
93	U52190WB2011PTC159305	SIYONA MARKETING PRIVATE LIMITED
94	U52190WB2011PTC159665	VINCENT VANIJYA PRIVATE LIMITED
95	U52190WB2011PTC159667	WINSTON SALES PRIVATE LIMITED
96	U72200WB2012PTC185632	TECKING INFONET PRIVATE LIMITED
97	U29130WB2009PTC140294	PREMIER AIR DUCT SOLUTION PRIVATE LIMITED
98	U74999WB2012PTC179565	YAMAVERI TRADECOM PRIVATE LIMITED
99	U74999WB2012PTC184157	LIFENU COMMODITIES PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in